

तुरंत रिलीज के लिए

## **ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल ने COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए, कारोबारियों की सहायता करने और अर्थव्यवस्था को बहाल करने की योजना पर काम किया**

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (13 मई, 2020) – आज, सिटी काउंसिल (City Council) ने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को दुबारा शुरू करने में आगे बढ़ने के लिए, सिटी हेतु फ्रेमवर्क के तौर पर ब्रैम्पटन की इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी (Economic Recovery Strategy) की हिमायत की।

### **छोटे कारोबारियों की हिमायत**

ब्रैम्पटन के छोटे कारोबारियों के समुदाय को, राजस्व की हानि और प्रॉपर्टी खाली कराए जाने के लगातार खतरे सहित, उन पर होने वाले COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी.-19) के प्रभावों को देखते हुए, मेयर ब्राउन ने प्रांतीय सरकार (Provincial Government) को एक पत्र जारी किया है। इस पत्र में उन्होंने सरकार के अनुरोध किया है कि यदि व्यवसायिक प्रॉपर्टी के कारोबारी किराया न दे पाएं, तो मालिकों द्वारा कारोबारियों से प्रॉपर्टी खाली कराने पर अस्थायी पाबंदी लगाई जाए। छोटी-अवधि का यह समाधान उन कारोबारियों को राहत प्रदान करेगा, जो कैंनेडा एमरजेंसी कमर्शियल रेंट असिस्टेंट (सी.ई.सी.आर.ए.) (Canada Emergency Commercial Rent Assistance) (CECRA) प्रोग्राम को मंजूरी मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

सिटी, ब्रैम्पटन के मकान मालिकों के सलाह देती है कि वे उन किराएदारों के साथ मिलकर काम करें, जिन्हें किराए का भुगतान करने में मुश्किल हो रही है और सी.ई.सी.आर.ए. (CECRA) के लिए आवेदन करने पर विचार करें।

### **अर्थव्यवस्था को बहाल करने की रणनीति (इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी)**

अर्थव्यवस्था को बहाल करने की रणनीति का मार्गदर्शन, मेयर की COVID-19 इकोनॉमिक स्पॉर्ट टास्क फोर्स (Economic Support Task Force) द्वारा किया गया है। इसके को-चेयर, रीजनल काउंसिलर्स माइकल प्लेशी (Michael Palleschi) और पॉल विसेंट (Paul Vicente) हैं। उन्होंने COVID-19 महामारी के दौरान, ब्रैम्पटन की हिमायत करने के लिए तालमेल करने और कारोबार संबंधी राहत प्रयासों को सहयोग देने के उपाय पर काम किया है। इस टास्क फोर्स में, फेडरल और प्रांतीय सरकारों के सदस्यों के साथ-साथ, ब्रैम्पटन बोर्ड ऑफ ट्रेड (Brampton Board of Trade), डाउनटाउन ब्रैम्पटन बी.आई.ए. (Downtown Brampton BIA), चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स (Chambers of Commerce) के साथ-साथ, ब्रैम्पटन के कारोबारी समुदाय के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

अर्थव्यवस्था को बहाल करने की रणनीति का उद्देश्य, ब्रैम्पटन की अर्थव्यवस्था को तेज़ी से बहाल करने के लिए इसे मुश्किलों से बाहर निकालकर, बेहतर स्थिति में लाना है। ये लक्ष्य, रणनीति की चार जरूरी चीजों के मुताबिक, तुरंत और लंबी-अवधि के कामों को आगे बढ़ाकर हासिल किए जाएंगे। चार जरूरी चीजें और कुछ तुरंत की जाने वाली कार्रवाईयां ये हैं:

- **इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रीनियरशिप**  
ब्रैम्पटन एंटरप्रीनियरशिप सेंटर (Brampton Entrepreneur Centre) के विस्तार की पेशकश और डाउनटाउन इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट (Innovation District) की अधिकारक तौर पर शुरुआत करने और इसे आगे बढ़ाने जैसी पहलकदमियों के द्वारा, नए तरीकों और टेक्नोलॉजी वाले परिवर्तन को पूरी तरह से ग्रहण करना और एंटरप्रीनियरशिप को पूंजी में बदलना।
- **निवेश**  
“स्पोर्ट लोकल” (“Support Local”) अभियान और वर्चुअल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिशन्स (Virtual Foreign Direct Investment Missions) की शुरुआत सहित, लोगों को निवेश करने के लिए उत्साहित करने के अवसरों का लाभ उठाना और इसे कायम रखना।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर**  
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना, अल्गोमा यूनिवर्सिटी (Algoma University) के विस्तार सहित।
- **कला, संस्कृति और पर्यटन**  
डिजिटल नवीनता को जारी रखना क्योंकि सिटी ने नए तरीके से, कला और संस्कृति सेक्टर के लिए, आने वाले समय की सांस्कृतिक भागीदारी और सहयोग संबंधी योजना बनाई है। तुरंत की जाने वाली पहलकदमियों में शामिल हैं, कला संबंधी शिक्षा, प्रदर्शन और कार्यक्रमों को आभासी (वर्चुअल) तौर पर प्रदान करना।

जैसे-जैसे कार्रवाईयां लागू होंगी और उनका मूल्यांकन होगा, वैसे ही रणनीति आगे बढ़ेगी।

#### हवाले

“COVID-19 ने, पूरी दुनिया के कारोबारियों की तरह ही, ब्रैम्पटन के कारोबारियों पर भी बहुत बड़ा आर्थिक प्रभाव डाला है। हम अपनी अर्थव्यवस्था का दुबारा निर्माण करने की योजना बनाते समय, लगातार हमारे कारोबारी समुदाय की हिमायत करते हैं। मुझे खुशी है कि इकोनॉमिक टास्क फोर्स ने, स्थानीय कारोबारियों को पूरी तरह सहयोग प्रदान करते हुए, बहाली पर ध्यान केंद्रित किया है। इसलिए हम अपनी अर्थव्यवस्था को दुबारा शुरू करने और जल्दी से जल्दी हमारे कारोबारियों को उनकी बहाली में सहयोग करने के लिए तैयार हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमारा सौभाग्य है कि हमारे कारोबारी समुदाय की समस्याओं के बारे में विचारविमर्श करने और संभावित समाधान पर हमारे साथ काम करने के लिए, इकोनॉमिक स्पोर्ट टास्क फोर्स की मीटिंगों में, मिनिस्टर सरकारिया और एम.पी. खहरा सहित, हमारे समुदाय में हमारे कई साझेदार हैं। अब हम इस संकट से बाहर आते हुए, हमारे कारोबारी समुदाय को सहयोग करने और अर्थव्यवस्था की बहाली के लिए योजना के लिए इकट्ठे काम कर रहे हैं। हम इकट्ठे अधिक मजबूत हैं और साथ मिलकर इससे बाहर आ जाएंगे।”

- माइकल पलेशी (Michael Paleschi), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 2 और 6; को-चेयर, इकोनॉमिक स्पोर्ट टास्क फोर्स

“COVID-19 महामारी के शुरू होने के बाद से ही हम अपने कारोबारी समुदाय के साथ जुड़े रहे हैं। हम उन्हें मिल रहे हैं, उनकी हिमायत कर रहे हैं और उनकी सहायता का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम ठोस कदम उठाकर, उन्हें मज़बूती से इस संकट से बाहर निकलने और अच्छी स्थिति में लाने में मदद करने पर काम कर रहे हैं। ये कदम, अब और आने वाले समय में उनकी मदद करेंगे।”

- *पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; को-चेयर, इकोनॉमिक स्पोर्ट टास्क फोर्स*

“हमारा स्टाफ, हमारे स्थानीय कारोबारियों को सहयोग करने के लिए, सिटी की COVID-19 टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ बिना थके लगातार काम कर रहा है। साथ ही, स्टाफ आने वाले समय में उनकी वृद्धि और सफलता प्राप्त करने में भी मदद कर रहा है। सिटी समय से पहले ही ऐसे कदम उठा रही है, जो सुनिश्चित करते हैं कि COVID-19 को फैलने से रोकने में बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था के कई सेक्टर शामिल हैं।”

- *डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

**मीडिया संपर्क**

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)